

**Time : 3Hrs.**

**Sem. III - AIL**  
**E M Lab**

**Full Marks : 50****Pass Marks : 20**

1. Each question carries equal marks.  
प्रत्येक प्रश्न का मान बराबर है।
2. Perform any one experiment/study and furnish it report  
किसी एक प्रयोग/अध्ययन को सम्पन्न करें एवं इसका पूर्ण प्रतिवेदन तैयार करें।
3. Experiment will be allotted through lottery to examinee/group of examinees.  
प्रयोग का आवंटन परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों के समूह को लॉटरी के ? आधार पर किया जाएगा।
4. Necessary calculations, drawings and other works shall be done individually.  
आवश्यक गणना, आरेखन एवं अन्य कार्य व्यक्तिगत रूप से किये जायेंगे।

	<b>Intn.</b>	<b>Extn.</b>
	<b>Comm.</b>	<b>Comm.</b>
a) Practical exercise book		
वर्ग में किये गए प्रयोगों की पुस्तिका		
b) Process of experiment and result	<b>05</b>	<b>15</b>
परिक्षण की विधि एवं निष्कर्ष		
c) Viva - voce	<b>10</b>	<b>20</b>
मौखिक प्रश्न	-	-

**P.T.O**

1. Perform compression test on bricks.

፩፲ የተ ተዘጋጀ ማረጋገጥ ዘመን |

አዲነት ገኩ ስለ መሠረት የሚከተሉ የሚከተሉ  
የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ

2. Verify polygon law of forces in lab.

ቍ እንደ |

አዲነት የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ

\*\*\*

3. Determine bending moment of a simply supported beam due to various point load acting at mid point of the beam in lab.

፩፳-፲፭ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ  
የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ

- mid of the beam in lab.

4. Determine the deflection at mid span of simply supported beam due to various point load acting at mid of the beam in lab.